

Bedtime Routine

50 Daily Use English Sentences with Hindi Meaning

#	English	Hindi / हिंदी
1	It's bedtime! Time to sleep.	सोने का टाइम हो गया! अब सो जाओ। (Sone ka time ho gaya! Ab so jao.)
2	Go and brush your teeth before sleeping.	सोने से पहले जाओ और दाँत साफ़ करो। (Sone se pehle jaao aur daant saaf karo.)
3	Change into your pyjamas.	अपना पजामा पहन लो। (Apna pyjama pehan lo.)
4	Have you finished your milk?	क्या तुमने अपना दूध पी लिया? (Kya tumne apna doodh pee liya?)
5	Keep your school bag ready for tomorrow.	कल के लिए अपना स्कूल बैग तैयार रख लो। (Kal ke liye apna school bag taiyaar rakh lo.)
6	Wash your hands and feet before going to bed.	बिस्तर पर जाने से पहले हाथ-पैर धो लो। (Bistar par jaane se pehle haath-pair dho lo.)
7	Put your dirty clothes in the basket.	गंदे कपड़े बास्केट में डाल दो। (Gande kapde basket mein daal do.)
8	It's already 9 o'clock, you should be in bed.	9 बज गए हैं, तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए। (9 baj gaye hain, tumhe bistar par hona chahiye.)
9	Don't forget to set the alarm for tomorrow.	कल के लिए अलार्म लगाना मत भूलो। (Kal ke liye alarm lagana mat bhoolo.)
10	Say your prayers before sleeping.	सोने से पहले प्रार्थना करो। (Sone se pehle prarthana karo.)
11	Can you read me a story, please?	क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं, प्लीज़? (Kya aap mujhe ek kahani suna sakte hain, please?)
12	Leave the night light on, I'm scared of the dark.	नाइट लाइट ऑन रखना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। (Night light on rakhna, mujhe andhere se darr lagta hai.)
13	Can I have a glass of water?	क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? (Kya mujhe ek glass paani mil sakta hai?)

English1to5.com — Bedtime Routine (contd.)

#	English	Hindi / हिंदी
14	I want my teddy bear. Where is it?	मुझे मेरा टेडी बेअर चाहिए। यह कहाँ है? (Mujhe mera teddy bear chahiye. Yeh kahaan hai?)
15	Can you close the window? It's too cold.	क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? बहुत ठंड है। (Kya aap khidki band kar sakte hain? Bahut thand hai.)
16	Please turn on the fan, it's very hot.	फैन चालू कर दो, प्लीज़। बहुत गर्मी है। (Fan chaalu kar do, please. Bahut garmi hai.)
17	Can I sleep in your bed tonight?	क्या मैं आज आपके बिस्तर पर सो सकता/सकती हूँ? (Kya main aaj aapke bistar par so sakta/sakti hoon?)
18	Tell me one more story, please!	एक और कहानी सुनाओ, प्लीज़! (Ek aur kahani sunao, please!)
19	I'm thirsty. Can I get some water?	मुझे प्यास लगी है। थोड़ा पानी मिल सकता है? (Mujhe pyaas lagi hai. Thoda paani mil sakta hai?)
20	Tuck me in, please!	मुझे चादर ओढ़ा दो, प्लीज़! (Mujhe chaadar odha do, please!)
21	I'm so sleepy, I can barely keep my eyes open.	मुझे बहुत नींद आ रही है, आँखें खुली नहीं रह रही। (Mujhe bahut neend aa rahi hai, aankhein khuli nahi reh rahi.)
22	I'm not tired yet. Can I stay up a little longer?	मुझे अभी नींद नहीं आ रही। क्या थोड़ी देर और जाग सकता/सकती हूँ? (Mujhe abhi neend nahi aa rahi. Kya thodi der aur jaag sakta/sakti hoon?)
23	I had a bad dream last night.	कल रात मुझे बुरा सपना आया था। (Kal raat mujhe bura sapna aaya tha.)
24	I'm scared. I heard a strange noise.	मुझे डर लग रहा है। मुझे अजीब आवाज़ सुनी। (Mujhe darr lag raha hai. Mujhe ajeeb awaaz suni.)
25	I feel happy today. It was a good day.	आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा दिन था। (Aaj main bahut khush hoon. Achha din tha.)
26	I'm tired because I played a lot today.	मैं थक गया/गई हूँ क्योंकि आज बहुत खेला/खेली। (Main thak gaya/gayi hoon kyunki aaj bahut khela/kheli.)

English1to5.com — Bedtime Routine (contd.)

#	English	Hindi / हिंदी
27	I can't sleep. My mind keeps thinking.	मुझे नींद नहीं आ रही। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। (Mujhe neend nahi aa rahi. Dimaag mein bahut kuch chal raha hai.)
28	I feel safe when you're near me.	जब आप मेरे पास होते हैं, मुझे सुरक्षित लगता है। (Jab aap mere paas hote hain, mujhe surakshit lagta hai.)
29	I'm excited about tomorrow's school trip!	कल की स्कूल ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ! (Kal ki school trip ke liye bahut excited hoon!)
30	I'm a little worried about the test tomorrow.	कल के टेस्ट को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। (Kal ke test ko lekar thoda worried hoon.)
31	Good night, Mummy!	गुड नाइट, मम्मी! (Good night, Mummy!)
32	Good night, Papa! Sweet dreams!	गुड नाइट, पापा! मीठे सपने! (Good night, Papa! Meethe sapne!)
33	See you in the morning!	सुबह मिलते हैं! (Subah milte hain!)
34	Sleep tight! Don't let the bed bugs bite!	अच्छी नींद लो! (Achhi neend lo!)
35	I love you, Mummy. Good night!	मैं आपसे बहुत प्यार करता/करती हूँ, मम्मी। गुड नाइट! (Main aapse bahut pyaar karta/karti hoon, Mummy. Good night!)
36	Good night, Bhaiya! Good night, Didi!	गुड नाइट, भैया! गुड नाइट, दीदी! (Good night, Bhaiya! Good night, Didi!)
37	Dream about something nice tonight!	आज रात कुछ अच्छा सपना देखना! (Aaj raat kuch achha sapna dekhna!)
38	Thank you for such a wonderful day.	इतने अच्छे दिन के लिए शुक्रिया। (Itne achhe din ke liye shukriya.)
39	God bless you. Good night, my child.	भगवान तुम्हें खुश रखे। गुड नाइट, मेरे बच्चे। (Bhagwan tumhe khush rakhe. Good night, mere bachche.)
40	Tomorrow will be an even better day!	कल का दिन और भी अच्छा होगा! (Kal ka din aur bhi achha hoga!)
41	Did you brush your teeth?	क्या तुमने दाँत साफ़ किए? (Kya tumne daant saaf kiye?)

English1to5.com — Bedtime Routine (contd.)

#	English	Hindi / हिंदी
42	Turn off the TV, it's time for bed.	TV बंद करो सोने का टाइम है। (TV band karo, sone ka time hai.)
43	No more screen time. Put the tablet away.	अब और स्क्रीन टाइम नहीं। टैबलेट रख दो। (Ab aur screen time nahi. Tablet rakh do.)
44	You have school tomorrow, sleep early.	कल स्कूल है, जल्दी सो जाओ। (Kal school hai, jaldi so jao.)
45	Shall I tell you a story or sing a song?	कहानी सुनाऊँ या गाना गाऊँ? (Kahani sunaun ya gaana gaun?)
46	Close your eyes and try to sleep.	आँखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। (Aankhein band karo aur sone ki koshish karo.)
47	I'll be right here if you need me.	अगर तुम्हें ज़रूरत हो, मैं यहीं हूँ। (Agar tumhe zaroorat ho, main yaheen hoon.)
48	Don't be scared, nothing can harm you.	डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। (Daro mat, tumhe kuch nahi hoga.)
49	You did very well today. I'm proud of you.	तुमने आज बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर गर्व है। (Tumne aaj bahut achha kiya. Mujhe tum par garv hai.)
50	Sleep well, my dear. Good night!	अच्छी नींद लो, मेरे प्यारे। गुड नाइट! (Achhi neend lo, mere pyaare. Good night!)